

भारत सरकार  
पर्यटन मंत्रालय  
राज्य सभा  
लिखित प्रश्न सं. 1898  
गुरुवार, 16 मार्च, 2023/25 फाल्गुन, 1944 (शक)  
को दिया जाने वाला उत्तर

प्रसाद योजना के प्रभाव और सीमा  
1898. श्री कार्तिकेय शर्मा:

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) प्रसाद योजना के तहत अब तक कितने तीर्थस्थलों को श्रद्धालुओं/पर्यटकों के लिए विकसित और खोला गया है;
- (ख) क्या इस योजना के तहत विकसित स्थलों पर श्रद्धालुओं/पर्यटकों की संख्या में वृद्धि हुई है;
- (ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में इन स्थानों की यात्रा करने वाले तीर्थयात्रियों/पर्यटकों की वर्ष-वार संख्या कितनी है;
- (घ) क्या हरियाणा राज्य के किसी स्थल को इस योजना में शामिल करने का प्रस्ताव है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ङ) यदि नहीं, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

पर्यटन मंत्री

(श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) : पर्यटन मंत्रालय ने 'तीर्थस्थान जीर्णोद्धार एवं आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान (प्रशाद) योजना के अंतर्गत देश में कुल 45 परियोजनाओं को अनुमोदित किया है जिसमें से 21 परियोजनाओं का भौतिक रूप से कार्यान्वयन पूरा हो गया है ।

(ख) और (ग) : पर्यटन मंत्रालय पर्यटकों से संबंधित गंतव्य/स्थल-वार आंकड़े नहीं रखता है तथापि 2019-2021 के दौरान देश में घरेलू और विदेशी पर्यटक आगमन से संबंधित राज्य-वार आंकड़े अनुबंध में दिए गए हैं ।

(घ) और (ङ.) : पर्यटन का विकास मुख्य रूप से संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन की जिम्मेदारी है तथापि पर्यटन मंत्रालय वर्तमान में जारी अपनी 'स्वदेश दर्शन', 'तीर्थस्थान जीर्णोद्धार एवं आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान' (प्रशाद) और 'केंद्रीय एजेंसियों को सहायता' योजनाओं के तहत हरियाणा सहित देश में पर्यटन अवसंरचना के विकास के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों/केंद्रीय एजेंसियों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है । उपरोक्त योजनाओं के अंतर्गत प्रस्तावों की प्रस्तुति और परियोजनाओं की स्वीकृति एक सतत प्रक्रिया है जो निधियों की उपलब्धता, उपयुक्त विस्तृत परियोजना रिपोर्टों की प्रस्तुति, योजना दिशानिर्देशों के अनुपालन, जारी परियोजनाओं के निष्पादन और पहले जारी की गई निधियों के उपयोग आदि के अध्यधीन है । इस मंत्रालय ने वर्ष 2019-20 में प्रशाद योजना के तहत 49.52 करोड़ रु. की राशि से पंचकुला जिला, हरियाणा में 'नाडा साहेब गुरुद्वारा तथा माता मनसा देवी मंदिर का विकास' परियोजना को पहले ही स्वीकृति दे दी है जिसका काम चल रहा है ।

प्रसाद योजना के प्रभाव और सीमा के संबंध में दिनांक 16.03.2023 के राज्य सभा के लिखित प्रश्न सं. 1898 के भाग (ख) और (ग) के उत्तर में विवरण

2019-2021 के दौरान घरेलू और विदेशी पर्यटक आगमन

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	2019		2020		2021	
		घरेलू	विदेशी	घरेलू	विदेशी	घरेलू	विदेशी
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	505398	16206	191207	5412	126238	1687
2	आंध्र प्रदेश	237051508	280356	70828590	67591	93277569	27551
3	अरुणाचल प्रदेश	555639	7825	42871	961	102915	182
4	असम	5447805	26878	1266898	7285	1409161	536
5	बिहार	33990038	1093141	5638024	308080	2501193	1046
6	चंडीगढ़	1563795	44132	417953	12218	228809	5451
7	छत्तीसगढ़	17304506	6817	2810227	2322	4747417	8
8	दादरा और नगर हवेली	618330	1666	104959	222	197802	80
9	दमन और दीव	897804	5703	297436	1382	463420	105
10	दिल्ली*	36467598	2983436	9583671	681230	10642477	100178
11	गोवा	7127287	937113	3258715	302751	3308089	22128
12	गुजरात	58864661	595607	19464517	210047	24525210	11319
13	हरियाणा	4549017	48046	2114731	17474	2025450	4578
14	हिमाचल प्रदेश	16829231	382876	3170714	42665	5632270	4932
15	जम्मू और कश्मीर	16163330	57920	2519524	5317	11314920	1650
16	झारखंड	35580768	176043	2574704	490	3383642	1637
17	कर्नाटक	227934714	608754	77453339	165325	81333659	72487
18	केरल	18384233	1189771	4988972	340755	7537617	60487
19	लक्षद्वीप	6985	820	3462	413	13500	4
20	मध्य प्रदेश	88707139	327958	23519632	99819	25554067	41601
21	महाराष्ट्र*	149294703	5528704	39234591	1262409	43569238	185643
22	मणिपुर	167560	13608	49669	3139	49371	648
23	मेघालय	1245633	25813	24734	2311	154409	411
24	मिजोरम	163762	2249	30890	265	87232	234
25	नागालैंड	125949	5577	10979	518	23968	325
26	ओडिशा	15307637	115128	4622273	10206	3742221	2269

27	पुदुचेरी	1713248	149919	1114942	92080	1253213	321
28	पंजाब	47385387	1101343	16692197	359114	26640429	308135
29	राजस्थान	52220431	1605560	15117239	446457	21988734	34806
30	सिक्किम	1421823	133388	316408	19935	511669	11508
31	तमिलनाडु	494865257	6866327	140651241	1228323	115336719	57622
32	त्रिपुरा	437201	154405	127815	31877	177816	5
33	तेलंगाना	83035894	323326	39997001	46694	32000620	5917
34	उत्तर प्रदेश	535855162	4745181	86122293	890932	09708435	44737
35	उत्तराखंड	37585920	152273	7005264	41339	19434475	8532
36	पश्चिम बंगाल	92366025	1656145	28841732	463285	24325984	34828
37	लद्दाख	241285	38652	6743	1126	303023	1054
	कुल	2321982663	31408666	610216157	7171769	677632981	1054642
	स्रोत: राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के पर्यटन विभाग,						

\*: 2020 और 2021 के आंकड़ों का अनुमान 2020/19 के लिए 2019 के आंकड़ों पर और 2021/20 के लिए 2020 के आंकड़ों पर अखिल भारतीय विकास दर को लागू करके लगाया गया है ।

\*\*\*\*\*